

SATIN CREDITCARE NETWORK LTD. **Reaching out!**

November 2, 2023

To. The Manager, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051

Symbol: SATIN

BSE Limited. 25th Floor, P. J. Towers, Dalal Street. Mumbai - 400001

The Manager,

Scrip Code: 539404

Sub: Submission of copies of newspaper advertisements for Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") and e-Voting information

Dear Sir/Madam.

Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, please find enclosed copies of the advertisements published on November 2, 2023, in Business Standard (English & Hindi) with respect to:

- Completion of dispatch of notices of the EGM; and
- E-Voting information relating to the EGM.

We request you to take the same on records.

Thanking you.

Yours faithfully, For Satin Creditcare Network Limited

(Vikas Gupta) **Company Secretary & Chief Compliance Officer**

Encl. as above

CORPORATE OFFICE: Plot No. 492, Udyog Vihar, Phase - III, Gurugram, Haryana - 122016, India

REGISTERED OFFICE: 5th Floor, Kundan Bhawan, Azadpur Commercial Complex, Azadpur, New Delhi - 110033, India CIN : L65991DL1990PLC041796 Landline No: 0124-4715400 E-Mail ID : info@satincreditcare.com Website

: www.satincreditcare.com



SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED CIN: L65991DL1990PLC041796 Registered Office: 5th Floor, Kundan Bhawan, Azadpur Commercial Comm

7

S.No

2

3

5

6

3. The a SEBI

resul

Place : Chennai

Date : November 01 2023

01

ex. Azadpur. Delhi-110033 e: Plot No. Vihar, Phase III, Gurugram, Haryana-122016 Email Id:

COMPLETION OF DISPATCH OF NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of the Members of Satin Creditcare Network Limited (the "Company") will be held on Monday, November 27, 2023 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No(s). 14/2020, 17/2020 and 9/2023 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and September 25, 2023 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue to transact the businesses as set out in the EGM Notice which has been circulated for convening the EGM.

The Company has sent the Notice of EGM on October 31, 2023, through electronic mode to the Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories Participants ("DPs") in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular. Members may note that the Notice of EGM is also available on the website of the Company viz., www.satincreditcare.com, website of the Stock Exchanges viz., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of CDSL viz., www.evotingindia.com.

In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") [including any statutory modification(s) or enactment(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force] and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, guidelines prescribed by the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of EGM using electronic voting system ("e-voting") provided by CDSL. The voting of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity capital of the Company as on Monday, November 20, 2023 ("Cut-off date").

The remote e-voting period commences on Friday, November 24, 2023 at 10:00 A.M. (IST) and ends on Sunday, November 26, 2023 at 5:00 P.M. (IST). During this period, Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Those Members, who shall be present in the EGM through VC and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through remote e-voting system during the EGM.

The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the EGM may also attend/participate in the EGM through VC but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person, who acquires shares and become Member of the Company after the dispatch of notice of EGM by the Company and whose name appear in the Register of Members of the Company or in the Statement of Beneficial Ownership maintained by Depositories as on Cut-off date i.e. Monday, November 20, 2023 can view the Notice on above mentioned websites and can exercise their voting rights through e-voting by following the procedure as mentioned in the said EGM Notice.

Members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses with the Company/DPs can get their details registered in the manner as prescribed in the Notice of EGM.

Members are also informed that in case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Senior Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

> For Satin Creditcare Network Limited Sd/-(Vikas Gupta)

Company Secretary & Chief Compliance Officer



Date: October 31, 2023

Place: Gurugram

CARATLANE TRADING PRIVATE LIMITED

CIN: U52393TN2007PTC064830

727, Anna Salai, Pathari Road Thousand Lights, Chennai TN 600006

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2023

(Rs in lakhs except earnings per share)							
		3 mont	3 months ended 6 months ended				
	Particulars	30/Sep/23 (Unaudited)	30/Sep/22 (Unaudited)	30/Sep/23 (Unaudited)	30/Sep/22 (Unaudited)	31/March/23 (Audited)	
1	Total income from operations (including other income)	70,709	44,643	1 34,802	92,852	217,686	
2	Net Profit for the period/year (before tax and exceptional item)	1,256	2,701	3,327	5,894	1 3,963	
3	Net Profit for the period/year before tax (after exceptional item)	1,256	2,701	3,327	5,894	13 ,963	
4	Net Profit for the period/year after tax (after exceptional item)	768	2,010	2,475	4,377	10,240	
5	Total comprehensive income for the period/year (after tax)	758	1,951	2,402	4,289	10,160	
6	Equity Share Capital	667	666	667	666	667	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve and Securities premium)	(17,377)	(25,586)	(17,377)	(25,587)	(19,739)	
8	Securities Premium Account	41,149	41,030	41,149	41,030	41,141	
9	Networth	24,439	16,109	24,439	16,109	22,070	
10	Outstanding debt	58,080	41,149	58,080	41,149	56,711	
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA	NA	NA	
12	Debt equity ratio	3.8 1	2.55	3.81	2.55	2.57	
13	Earnings per equity share (of Rs. 2/- each)- Not annualised						
	Basic	2.30	6.04	7.42	13.15	30.75	
	Diluted	2.29	5.97	7.38	13.00	30.56	
14	Capital redemption reserve	NA	NA	NA	NA	NA	
15	Debt redemption reserve	NA	NA	NA	NA	NA	
16	Debt service coverage ratio	7.72%	20.94%	12.57%	25.81%	24.45%	
17	Interest service coverage ratio	200.17%	465.18%	231.40%	561.40%	495.79%	

ORIENT GREEN POWER COMPANY LIMITED Registered office: Bascon Futura SV, 4th Floor, No: 10/1, Venkatanarayana Road, T. Nagar, Chennai -600017 Corporate Identity Number : L40108TN2006PLC061665 EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2023

				(Rs. in Lakhs)
		Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended
S.No.	Particulars	30/09/2023	31/03/2023	30/09/2022
		Unaudited	Audited	Unaudited
1	Total Income from Operations	12,410	29,021	10,824
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional items and/or Extraordinary items)	6,174	1,176	3,980
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	7,500	3,510	3,501
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax, Exceptional and/or Extraordinary Items (before discontinued operations)	7,500	3,510	3,501
5	Net Profit/(Loss) for the period after tax from discontinued operations	-	(177)	(121)
6	Net Profit/(Loss) for the period after tax from continuing and discontinued operations (after Exceptional and/or Extraordinary items)	7,500	3,333	3,380
7	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7,409	3,490	3,261
8	Equity Share Capital (Face Value of the share - Rs. 10/- each)	98,072	75,072	75,072
9	Other Equity			
10	Earnings Per Share (EPS) (after Extraordinary items) of Rs.10/- each (Not annualised)			
	(A) For Continuing Operations			
	a) Basic	0.92	0.42	0.43
	b) Diluted	0.92	0.42	0.43
	(B) For Discontinued Operations			
	a) Basic	-	(0.02)	(0.01)
	b) Diluted	-	(0.02)	(0.01)
lotes:				

Notes:
1. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on

2. The above extract is as per Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). Also, as required, the specified items of the Standalone financial results of the company are given below. (Bs in Lakhs

		0	(ns. III Lakiis)
		Standalone	
Particulars	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended
Fatuculais	30/09/2023	31/03/2023	30/09/2022
	Unaudited	Audited	Unaudited
Total Turnover of the company	535	2,343	616
Net Profit/(Loss) for the period			
(before tax, after exceptional and/or extraordinary items)	(291)	283	(642)
Net Profit/(Loss) for the period after tax, Exceptional and/or	(001)	000	(6.40)
Extraordinary Items (before discontinued operations)	(291)	283	(642)
Net Profit/(Loss) for the period after tax from discontinued operations	-	31	(25)
Net Profit/(Loss) for the period after tax from continuing and discontinued			
operations	(291)	314	(667)
Total Comprehensive Income/(loss) for the period (comprising profit/	(00.0)		(225)
(loss) and other comprehensive income for the period after tax)	(296)	295	(665)
above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed			
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as			
Its is available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and ww	rw.bseindia.com)	and on the websit	e of the company
w.orientgreenpower.com).	For and	l on behalf of the l	Board of Directors
			T Shivaraman

(Re in lakhe except earnings per chare)

T Shivaraman Managing Director & CEO DIN: 0131201

Place : Kolkata

Tantia

TANTIA CONSTRUCTIONS LIMITED Regd Office : DD-30 Sector I Salt Lake City Kolkata-700064

CIN NO: L74210WB1964PLC026284 Tel No. 033-4019-0000 Fax No. 033-4019-0001 E-mail: cs@tantiagroup.com secretarial@tantiagroup.com Website: www.tantiagroup.com **NOTICE** is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, November 08, 2023, at the registered office of the Company at 03:30 P.M. inter-alia, to approve the Unaudited Financial

Results for the quarter ended 30th September, 2023. Further the said notice would also be available on the website of the Company viz., www.tantiagroup.com and on the website of the BSE Limited viz., www.bseindia.com and NSE Limited viz., <u>www.nseindia.com</u> where the Shares of the Company are Listed. Place[,] Kolkata Date:01-11-2023

By Order of the Board For Tantia Constructions Limited

युको बैंक 🕅 UCO BANK

Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-70000 REQUEST FOR PROPOSAL

UCO Bank invites sealed applications for Selection of Insurance Company for Group ersonal Accident Insurance Policy for Account holders of Select Deposit Sche vide Request for Proposal (RFP) No. UCO/ RESOURCES / RFP/02/ 2023-24 dated

The RFP and relevant details may be downloaded from Bank's website www.ucobank.com. Please note that the Date & Time for submitting response to RFP is 22/11/2023 by 1100 Hrs at UCO Bank, Head Office, Resources Department, 2nd Floor, 10 BTM Sarani, Kolkata-700001. Vertical Head Vertical Head Date: 02/11/2023 **Resources Department**

are ast Honours You

	LONGVIEW TEA Regd. Off.: 62, Hezre CIN: L15491W	Road, Kolk B1879PLC0	ata - 700 01 100377	9		
	Phone No.033-4014 2222 Website: www. Extract of Unaudited Fin and Six Months ende	ancial Result	ts for the Qu	arter	viewtea.org	(र in Lacs)
L Q.	Particulars	Quarter ended 30.09.2023 (Un-Audited)	Quarter encied 30.09.2022 (Un-Audited)	Six months ended 30.09.2023 (Un-Audited)	Six months ended 30.09.2022 (Un-Audited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)
	Total income from operations (net) Net Profit/(Loss) for the period (before tax,	93.13	19.47	155.26	113.07	215.01
	Exceptional and/or Extraordinary Items)	40.08	28.83	93.71	-33.83	6.30
	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	40.08	28.83	93.71	-33.83	6.30
	Net Profit/(Loss) for the period after tax	32.68	23.03	79.86	-27.98	-28.38
	(after Exceptional and/or Extraordinary Items) Total comprehensive income for the period					
	Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)					
	and Other Comprehensive Income (after tax)]	33.29	24.31	81.84	-28.85	-28.94
	Equity Share Capital	300.07	300.07	300.07	300.07	300.07 1327.97
	Reserves (excluding Revaluation Reserve) Earnings Per Share (of ₹10/- each) (not annualised)-	-	-	-	-	1327.97
	Basic :	1.09	0.77	2.67	-0.93	-0.55
	Diluted:	1.09	0.77	2.67	-0.93	-0.55
ote	•>					
	The above is an extract of the detailed Un-Audited Final					
	30, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation					
	Regulations, 2015. The full format of the Un-Audited				e Stock Excha	inge website
	(www.bseindia.com) as well as on the website of the Co					مطابعها أسميه
	The above Un-Audited Results for the quarter and six m Audit Committee and approved by the Board of Director					Newed by the
	The Un-audited financial results of the Company ha					Accounting
	Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the					
	principles.	panikaa			alf of Board o	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		POP	ing on pers		Y.K. Daga
) and	ed : November 01, 2023				007	Director

N PDS

PDS Limited (Erstwhile PDS Multinational Fashions Limited) CIN: L18101MH2011PLC388088

Regd. Office: Unit No. 971, Solitaire Corporate Park, Andheri - Ghatkopar Link Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra. India E-mall: investors@pdsltd.com I Website: www.pdsltd.com I Tel: +91 2241441100 POSTAL BALLOT NOTICE TO MEMBERS & UPDATION OF

EMAIL ADDRESSES OF SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read together with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutor modification(s) or enactment thereof for the time being in force) ("the Rules"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, as amended ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard or General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, and in terms of General Circular No.14/2020 dated 8th April 2020 read with General Circular No.17 2020 dated 13th April 2020, General Circular No.03/2022 dated 5th May 2022, General Circula No.11/2022 dated 28th December 2022 and General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referre to as "MCA Circulars"), the Company is initiating the Postal Ballot for obtaining the approva of the Shareholders in relation to transact the business(es) set out in the Postal Ballot Notice dated November 01, 2023 ("Notice"), which will be sent to the members in due course.

In accordance with the MCA Circulars, electronic copy/version of the Notice along withproced & instructions for e-voting will be sent to only those members whose email ID isregiste the Company/ Depository Participants ("DP").

The Company will send Notice by email to all its shareholders on Friday, November 03, 2023 whose names appear on the Register of Members/list of Beneficial Owners as received from the Depositories, National Securities Depository Limited ("NSDL") / Central Depository Service (India) Limited ("CDSL") on Monday, October 30, 2023 (hereinafter called as "Cut-off Date" and who have registered their e-mail addresses with the Company or Depositories / Depositor Participant(s)and the communication of assent/ dissent of the members will only take place through the remote e-voting system. For this purpose, the Company has entered into ar arrangement with Link Intime Private Limited for facilitating remote e-voting to enable the shareholders to cast their votes electronically instead of physical mode. Remote e-voting wil commence from Saturday, November 04, 2023 (9:00 A.M. IST) and on Sunday, December 03 2023 (5.00 P.M. IST) and remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time Therefore, those shareholders who have not yet registered/updated their email address are requested to get their email addresses registered/updated, in respect of electronic holdings with the Depository through the concerned Depository Participants (i.e. NSDL & CDSL) and in i.e. Link Intime Private Limited ("RTA") at delhi@linkintime.co.in.

Post successful registration of the email, the shareholder would get soft copy of the notice and the procedure for remote e-voting along with the User ID and the Password to enable remote e-voting for this Postal Ballot. Those shareholders who have already registered the email address are requested to keep their email addresses validated with their DP / the Company's RTA

The Postal Ballot Notice will also be available on the website of the Company i.e www.pdsitd.com and also on the website of Exchanges i.e. BSE Limited and National Stoc Exchange of India Limited in due course. By Order of the Board of Directors

for PDSLimited (Erstwhile PDS Multinational Fashions Limited,

CONSTRUCTIONS

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of unaudited standalone financial results for the quarter and half year ended 30 September 2023 and can be viewed on the website of the Company and BSE Ltd (BSE) at www.caratlane.com and www.bseindia.com.

2. The unaudited standalone financial results of CARATLANE TRADING PRIVATE LIMITED ("the Company") have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended and Regulation 33 and Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, as prescribed in SEBI operational circular SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2021/613 dated 10 August 2021.

3. The financials results for the quarter and half year ended 30 September 2023 have been recommended by the Audit Committee of the board and approved by the Board of Directors at their meeting held on 31 October 2023.

4. For the item referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges(s) (Bombay Stock Exchange) and can be accessed on the URL (www.bseindia.com). 5. Key Ratios

	Doutionland	3 month	s ended	6 mont	Year ended	
S.No	Particulars	30/Sep/23	30/Sep/22	3.81 12.57% 231.40% 5 24,439	30/Sep/22	31/March/23
i.	Debt Equity Ratio	3.81	2.55	3.81	2.55	2.57
ü.	Debt Service Coverage Ratio	7.72%	20.94%	12.57%	25.81%	24.45%
iii.	Interest Service Coverage Ratio	200.17%	465.18%	231.40%	561.40%	495.79%
iv	Net worth (in Rs. lakhs)	24,439	16,109	24,439	1 6,109	22,070
v	Current ratio	1.00	1.01	1.00	1.01	1.02
vi	Long term debt to working capital	-	-	-	-	-
vii	Bad debts to Account receivable ratio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
viii	Current liability ratio	0.80	0.77	0.80	0.77	0.70
ix.	Total debts to total assets	0.51	0.31	0.51	0.31	0.36
x.	Debtors turnover*	14.71	83.80	27.67	71.93	76.21
xi.	Inventory turnover*	0.51	1.49	0.96	1.70	1.97
xii.	Operating margin (%)	5.30%	10.63%	6.29%	10.31%	10.72%
xiii.	Net profit margin (%)	1.10%	6.13%	1.86%	6.41%	6.48%

*Debtors turnover and Inventory turnover ratio for the quarter and half year ended 30 September 2022 have been annualised.

By order of the Board

Mithun Padam Sacheti DIN: 01683592

Managing Director

Company Secretary cum Compliance Officer

Head of Legal & Company Secretary

CARE Ratings Limited



CIN-L67190MH1993PLC071691

Regd. office: Godrej Coliseum, 4th Floor, Somaiya Hospital Road,

Off Eastern Express Highway, Sion (East), Mumbai, Maharashtra - 400022.

: Mumba

Date: November 1, 2023

Tel. No.: 022-67543456 · Email: investor.relations@careedge.in

Website: www.careedge.in

EXTRACTS OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL **RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023**

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 30-09-2023	CONSOLIDATED Six Months Ended 30-09-2023	Quarter End
1		Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total Income from Operations	9,644.14	16,286.01	8,476.48
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5,006.00	7,647.39	4,777.99
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,006.00	7,647.39	4,777.99
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,573.38	5,408.94	3,485.53
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3,595.42	5,415.79	3,489.62
6	Equity Share Capital (Face value : ₹10/- per share)	2,977.29	2,977.29	2,964.89
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	
8	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	Basic	11.83	17.83	11.57
	Diluted	11.79	17.78	11.57

Extract of Statement of Standalone Unaudited Financial Results of CARE Ratings Limited for the Quarter & Half year ended September 30, 2023

		(₹ in Lakhs exce	pt per share data		
	STANDALONE				
Particulars	Quarter Ended 30-09-2023	Six Months Ended 30-09-2023	Quarter Endeo 30-09-2022		
	Unaudited	Unaudited	Unaudited		
Total Income from operations	8,511.12	14,158.72	7,748.73		
Profit before Tax	5,460.73	8,384.86	5,130.19		
Profit after Tax	4.075.04	6.237.27	3,847.12		
	Total Income from operations Profit before Tax	30-09-2023 Unaudited Total Income from operations 8,511.12 Profit before Tax 5,460.73	Particulars Guarter Ended 30-09-2023 Six Months Ended 30-09-2023 Total Income from operations 8,511.12 14,158.72 Profit before Tax 5,460.73 8,384.86		

Date : October 31, 2023 Place : Mumbai

The above is an extract of the detailed format of Quaterly and Half Yearly Unaudited Financial Results (Consolidated & Standalone) filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Half Yearly Unaudited Financial Results (Consolidated & Standalone) are available on the website of the Stock Exchanges (www.bseindia.com, www.nseindia.com) and the website of the Company: www.careedge.in.

2) The above results, have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on October 31, 2023 as per Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirem Regulations, 2015 and have been subjected to limited review by the statutory auditors of the Company.

For and behalf of the Board of Directors
CARE Ratings Limited
Sd/-
(Mehul Pandya)
Managing Director & CEO
DIN No.: 07610232

Place: Bengaluru Date: October 31, 2023

सार्वजनिक सूचना इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवकिल्ल श्री रजीत उर्फ रंगीत आतासीय भूखंड के मालिक हैं (116.05 वर्ग गज), खेत नंबर 271K, प्राम शहादरा का हिस्मा दादरी परगना, तहसील और जिला. गौतमबुद्ध नगर, उपहार तिलेख के माध्यम से (दसतांज संख्या 43580, खेंड संख्या 26460, पृष्ठ संख्या 17-34, एसओर: येटर नोएडा, दिनोक दिलेख जिम्बाय से (दसतांज संख्या 43580, खेंड संख्या 26460, पृष्ठ संख्या 17-34, एसओर: येटर नोएडा, दिनोक दिलेख जिम्बाय भी स्वीता के कि जीते के जिम्बार दिलेख जिम्बाय से (दसतांज संख्या 43580, खेंड संख्या 26460, पृष्ठ संख्या 17-34, एसओर: येटर नोएडा, दिनोक दिलेख दिनोक 25.08.2022 द्वारा श्रीमती नी कि गुपता है	ी MIKAE ASSET त. य	सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड CIN: L659971DL 1990PLC041796 पंजीकृत कार्यालय: 5वीं मंजिल, कुंदन भवन, आजादपुर वाणिज्यिक परिसर, आजादपुर, दिल्ली–110033 कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नंबर 492, उद्योग विल: फेज ॥।, गुरुग्राम, हरियाणा–122016 फ्रीन नंबर 0124-4715400: वेबसाइट: www.satincreditcare.com ई-मेल आइवी: secretaria@satincreditcare.com
12/10/2023) श्रीमती संत्रोष द्वारा निषपदित। श्री रंजीत उर्फ रंजीत इसे फेडबैंक फाइनेशियल सर्विसेज तिमिटेड के पास गिरती रखना चाहता है। किसी को भी इस पर कोई आपति है बंधक 7 दिनों (प्रकाशन दिवस सहित) के भीतर विशिष्ट तिखित आपत्तियों के साथ अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकता है अन्यथा यह मान यह माना जाएगा कि इस बंधक पर कोई आपत्ति नहीं है। बरुण फोगाट (एडवोकेट) 72/03, गती ने. 2, कृण्या नगर, सफटररवंग पल्वतेन, नई दिल्ली: 110029 (07982557892) (varunphogaat@gmail.com)	In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media	असाधारण आम बैठक की सूचना के प्रेषण का समापन नोटिस द्वारा सूचना दी जाती है कि सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड ('कंपनी'') के सदस्यों की असाधारण आम बैठक ('ईजीएम'') सोमवार, 27 नवंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग('वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम'') सुविधा के माध्यम से आयोजित की जायेगी। कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 के साथ सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020 और 9/2023 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 औरल, 2020 और
	Date Time Address	25 सितंबर, 2023 क्रमशः कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी (''एमसीए परिपत्र'') और परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी—पीओडी—2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 को मारतीय
home First Finance Company India Limited CIN : L65990MH2010PLC240703 Website: homefirstindia.com Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com	November 04, 2023 07:00 P.M. Radisson Blu Hotel, Plot No. 4, Sector-13, Dwarka, Delhi - 110 075. MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India)	प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी (''सेबी परिपत्र''), ईजीएम नोटिस में निर्धारित कार्यों को करने के लिए एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, जैसे कि ईजीएम नोटिस में निर्धारित किया गया है, जिसे ईजीएम आयोजित करने के लिए परिचालित किया गया है।
शुद्रिपञ "कृपया प्रीति दुबे, नीतीश रंजन सम्पत्ति पता फ्लैट– 710, ब्लॉक–ए, कालका रॉयल रेजीडेंसी, सेक्टर–39, थाडा (Thada) रोड, मिवाड़ी, जिला अलवर, राजस्थान अलवर 121010 के संबंध में बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेजी + हिन्दी) में दिनांक 23–06–2023 को	Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625) Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai-400098. ■ 1800 2090 777 (Toll free), ⊠ customercare@miraeasset.com	कंपनी ने 31 अक्टूबर, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को ईजीएम की सूचना भेजी है, जिनके ई—मेल पते उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुसार कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत हैं। माननीय सदस्य गण इस बात पर ध्यान दें कि ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.satincreditcare.com,
प्रकाशित मांग सूचना विज्ञापन के संदर्भ में देखें। नोट करें कि इस खाते हेतु मांग सूचना दिनांकित 20-06-2023 निरस्त कर दी गई है। शेष विषयवस्तु में कोई परिवर्तन नहीं है।"	Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.	स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com क्रमशः पर और सीडीएसएल की वेबसाइट अर्थात् www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।
तिथि : 02–11–2023 हस्ता. / – प्राधिकृत अधिकारी स्थान : अलवर होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड		कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (" नियम") के नियम
सूचना त्रिहण वस्तूली अपीलीय न्यायाधिकरण अपार्टमेंट नं. 318, तीसरी मंजिल, होटल सम्राट, कौटिल्या मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 अपील सं.: 57/2021 में एसए नं. 80/2021 में डीआरटी।।, चंडीगढ	अानंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड पुरुषसंप्रेस जोन, ए बिंग, 8वां तल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईने, तिराठे रूप में ओबरॉय गॉल के सामुख, गोरेगांव (पू), गुंबई – 400 063, भारत जबकि यहां नीचे तालिका में उल्लिखित उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं ने आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड से वित्तीय सहायता प्राप्त की है। हमार कहना है कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद भी, उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं ने देय तिधियों के अनुसार ब्याज एवं मूलधन राष्ट्री के पुनर्नुगता में विभिन्न चूक की है। फलत: खाता को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत निर्देशों/देशानिर्देशों के अनुसार यहां नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों प अनिष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसंपत्तियों प्र प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के ने यहा पठित घारा 13(2) के अंतर्गत प्रतद शक्ति के प्रयोगांतर्गत संपर्कार्णरी अधिनियम 2002 की घारा 13(2) के अंतर्गत यहां निम्न नालिका में उल्लिखित संबंधि	 जाती है। सदस्यों का मतदान सोमवार, 20 नवंबर, 2023 ("कट—ऑफ डेट") को कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा। रिमोट ई—वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 24 नवंबर, 2023 को सुबह 10:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और
बैंक ऑफ इंडिया अपीलकर्ता	तिथियों पर मांग सूचनायें निर्गत की हैं, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं ⁄बंधककर्ताओं को सूचना में उल्लिखित राशि का, भुगतान की तिथि तक, सूचनाअ में अंकित राशि पर संविदागत दर पर नियत भावी व्याज तथा आकस्मिक व्ययों, लागत, शल्कों, इत्यादि के साथ, सचनाओं की तिथि से 60 दिवसों व	📲 इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा दूरस्थ ई—वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर
बनाम अजय कुमार तथा अन्य प्रतिवादी गर्म	अंदर, प्रतिभुगतान करने का निर्देश दिया गया है।	दिया जाएगा। वे सदस्य, जो वीसी के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला था और अन्यथा ऐसा करने से नहीं रोका गया है, वे ईजीएम के दौरान रिमोट ई—वोटिंग
प्रात. (2) केशव कुमार अग्रवाल. पिता श्री महावीर प्रसाद, स्वत्याधिकारी मैसर्स के. के. इंडस्ट्रीज, निवासी मकान नं. 101. बाबा नगर, मेहम गेट, भिवानी (हरियाणा)-127309 <u>क्रिरीय पता</u> : प्लॉट नं. 48पी-49, सेक्टर 26, इंडस्ट्रियल एरिया, भिवानी (हरियाणा)-127021 (3) हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., सी-13 एवं 14. संक्टर 6, पंवकुला (हरियाणा)-134109 (4) हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., पहली मंजिल, एससीओ नं. 221. हूडा सिटी संटर, गिवानी (हरियाणा)-127021 पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण-II. चंडीगढ़ ढारा मामला नं. एसए 80/2021 में <u>दिनांक 17.08.2021</u> को पारित आदेश से अपील। व्यान दें कि अपीलकर्ता द्वारा डी.आर.टी. के पीठासीन अधिकारी द्वारा जपर उल्लेखित मामले में पारेत आदेश से एक अपील विनोंक <u>01.10.2021</u> को प्रस्तुत की गई थी तथा वह न्यायाधिकरण में पंजीकृत है। इस न्यायाधिकरण के समक्ष यह मामला दिनॉक <u>17.07.2023</u> को सूचीबद्ध किया गया था। इसके साथ अपील के ज्ञापन की प्रतिशिपि के साथ पेपर बुक भेज दी गई है। इस न्यायाधिकरण में वीडियो कॉफ़ेसिंग के जरिए अगली सुनवाई की तारीख <u>19.01.2024</u> है। इस अपील में आ अधला आपकी और से आप के अधिकारी आया वी <u>ठा से मान्तू</u> दारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति के उपस्थित नहीं रहने पर इस मामले पर आपकी अनुपसिर्धित में सुनवाई कर उस पर निर्णय प्रदान कर दिया जाएगा। मेरे हरताक्षर एवं इस न्यायाधिकरण की मुहर के अंतर्गत <u>17 अगस्त, 2023</u> को जारी। संक्शन आधिकारी	उधायकर्ता(ओ)/सह-उधायकर्ता(ओ) एवरपीए तिथि के वाग/पते के वाग/पते (i) मैसर्स मिर बॉक्स (उधायकर्ता) एक-44, यूपीएसआईऔए, साइट-शी, सूरजपुर इंड. एरिंग, ग्रेटर नोएडा, जीवी नगर, उ.प्र201308 12/10/2023 आरओआई 12.00% (j) मैसर्स मिर बॉक्स (उधायकर्ता) एक-44, यूपीएसआईऔए, साइट-शी, सूरजपुर इंड. एरिंग, ग्रेटर नोएडा, जीवी नगर, उ.प्र201308 12/10/2023 आरओआई 12.00% (j) मैसर्स मिर बॉक्स (उधायकर्ता) ई-401, पवित्रा अपार्टमेंद्स, यसुन्यरा एन्वलेव, यूवी दिल्ती-110096 12/10/2023 आरओआई 12.00% (a) औ सीरेत ष्वराख (सह-उधायकर्ता) ई-401, पवित्रा अपार्टमेंद्स, यसुन्यरा एन्वलेव, यूवी दिल्ती-110096 10/10/2023 आरओ कई राष्ट्रिंग प्रयुक्त प्रतिहे20 (a) औ मति वाकांमा खरख (सह-उधायकर्ता) ई-401, पवित्रा अपार्टमेंद्स, यसुन्यरा एन्वलेव, यूवी दिल्ती-110096 17,620 (a) औमती जाकांमा खरख (सह-उधायकर्ता) ई-401, पवित्रा अपार्टमेंद्स, यसुन्यरा एन्वलेव, यूवी दिल्ती-110096 उपरुक्त यरच्यारकर्ता (ई-401, पवित्रा अपार्टमेंदस, यसुन्यरा एन्वलेव, यूवी विल्ती-110096 (j) भीसती जाकांमा खरख (सह-उधारकर्ता) ई-401, पवित्रा अपार्टमेंदस, यसुन्यरा एन्वलेव, यूवी विल्ती-110096 उपरुक्त परिसंदियों के विवरण : पलेट नं. ई-401, चतुर्थ तल, ब्लॉकर्ट, पूर्वी विल्ती-110096 प्रतिभूति वाली परिसंपत्तियों के विवरण : पलेट नं. ई-401, चतुर्थ तल, ब्लॉकर, प्रती विल्ती-110096 प्रतिभूति वाती परिसंपत्तियों मे एतदद्वारा ऊपर उल्लित उधारकर्ताओ को सूचित्म (खुला) उपर्युत्त परिसंतियों मे एतदद्वारा उपर वल्लित उधारकर्ताओ को सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि कि के वर्त अधितिम्य र	सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने ईजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी के माध्यम से ईजीएम में भी उपस्थित हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वोट डाला है, वे वीसी के माध्यम से ईजीएम में भी उपस्थित हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वोट डाला के हकदार नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी द्वारा ईजीएम की नोटिस भेजे जाने के बाद शेयरों का अधिग्रहण करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामित्व के विवरण में कट—ऑफ दिनांक 20 नवंबर, 2023 पे दिखाई देता है, उपरोक्त वेबसाइटों पर नोटिस देख सकता है और ईजीएम के उक्त नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके ई—वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान अधिकारों का उपयोग कर सकता है। ऐसे सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जिन्होंने कंपनी/डीपी के साथ अपना ई—मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे ईजीएम के नोटिस में नर्धारित तरीके से अपना विवरण पंजीकृत करा सकते हैं। सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आपके पास ई—वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (' 'एफएकयू ') और www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई—वोटिंग मैनुअल को सहायता अनुभाग के तहत देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई—मेल लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतों श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, सीडीएसएल, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराधन फ्यूचरक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई – 400013 संबोधित की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई—मेल सिकते हैं या 022–23058542/43 पर
फॉर्म जी अभिक्तचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण	भी प्रत्युत्तर में आपके किसी भी अभ्यावेदन का प्रत्युत्तर न देने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, यदि प्रत्युत्तर किसी अन्य व्यक्ति अथवा रथान को संबोधित होता है। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत, कोई भी उधारकर्ता, प्रतिभूत ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, सूचन	त कृते सीटेन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड
आमर्श्वाच को आमयोक्त के लिए आमर्थण मैसर्स एमजीआई इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड प्री फैब्रिकेडिट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में प्रचालन, खसरा नं. 294 / 3, जी / एफ, छत्तरपुर, नई दिल्ली–110030	में संदर्भित अपनी किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं करेगा। दिनांक : 19/10/2023; स्थान : दिल्ली हस्ता./–, आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिनिटेड, प्राधिकृत अधिकार्य	, स्थानः गुरूग्राम (विकास गुप्ता)
प्रचालन, खसरा न. 294 / 3, जी / एफ, छत्तरपुर, नई दिल्ली—110030 (भारतीय ऋणशोधनक्षमता व दिवालियापन बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए ऋणशोधनक्षमता प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियम 2016, के विनियम 36ए (1) के अंतर्गत)		🖞 दिनांकः 31 अक्टूबर, 2023 कंपनी सचिव और मुख्य अनुपालन अधिकारी
संबंधित विवरण गे पैन / सीआईएन / एलएलपी नं. एमजीआई इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के सहित निगमित ऋण्यतात का नाम CIN: U70200DL2011PTC226029 2 पंजीकृत कार्यालय का पता खसरा नं. 294 / 3, जी / एफ, छत्तरपुर, नई दिल्ली–110030 3. वेबसाइट का यूआरएल https://www.ngilinfra.in/ 4. स्थान का विवरण जहां अधिकतर स्थायी परिसंपत्ति स्थित है खसरा नं. 294 / 3, जी / एफ, छत्तरपुर, नई दिल्ली–110030 5. मुख्य उत्पादो / रसेवाओं को इंस्टाल करने करने की समता 2.0 लाख वर्ग फुट (प्रति वर्ष) 6. अंतिम वित्तीय वर्ष में बेची गए मुख्य उत्पादो / सेवाओं को मात्रा / मूल्य परपादो / सेवाओं को मात्रा / मूल्य 30,000 वर्ग फुट (प्रति वर्ष) 7. कर्मचारी / कामगार की संख्या 8 8 8. दो वर्षो के अंतिम नएल ख वित्तीय वियन्त विवरण	Personal Finance, Insi Personal Finance, Monday to Saturday To book your copy, sms reachbs to 57575 or email o	
 विवरण (अनुसूची के साथ), ऋण विद्या के निरंतर कार्यक्रमों के लिए संबंधित तिथियों से माप्त किया जा सकता है । कोड की धारा 25(2)(एच) के तहत प्रस्ताव आवेदन के लिए योग्यता मापदंड ई-मैंत: cirpmgiinfra2023@gmail.com से प्राप्त किया जा सकता है । कोड की धारा 25(2)(एच) के तहत प्रस्ताव आवेदन के लिए योग्यता मापदंड ई-मैंत: cirpmgiinfra2023@gmail.com से प्राप्त किया जा सकता है । अभिरूषि की अभिव्यतित के लिए अभिरूषि की अभिव्यतित के लिए 		<mark>s Standard</mark> ght Out
	D = ⁸	
प्रावधानिक सची के जारी होने की तिथि		लूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
12 प्रावधानिक सूची के विरोध जमा करने की अंतिम तिथि 01.12.2023 13. संमावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि 11.12.2023	डिक्सन टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड (//) CIN: 1.32101UP1983PLC066581	(भारत सरकार का उपक्रम एवं ओएनजीसी की सहायक कंपनी) CIN - L23209KA1988GO1008959
सूचा जारा हान का ताथ 14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव 16.12.2023	पंजीकृत कार्यात्वयः वी–14 व 15, फेज 2, नोएंडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201305 एटलआइपीएटल इमितः Investorelations@dixoninfo.com, वेवसाइटः www.dixoninfo.com, कोन न0, 0120– 4737200 MBPI	

	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजनाओं के लिए जानकारी मेमोरेंडम, मूल्यांकन मैट्रिक्स जारी करने व अनुरोध की अंतिम तिथि	16.12.2023					
15.	अंतिम तिथि	15.01.2024					
16.	ईओआई जमा करने के लिए प्रक्रिया ईमेल आईडी	cirpmgiinfra2023@gmail.com					
	सुनील कुमार अग्रवाल एमजीआई इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रस्ताव प्रोफेशनल Regn. No.: IBBI/IPA-002/IP- N00081/2017-2018/10222 स्थान : नई दिल्ली पताः ई-205, एलजीएफ. ग्रेटर केलाश- । ।. नई दिल्ली-110048						

स्थान ः जयपुर तिथि : 02. 11. 2023

CIN: L32101UP1993PLC066581 **हत कार्यालयः बी**—14 व 15, फेज 2, नॉएडा, गौतम बुद्ध नगर **चत्तर प्रदेश—20130**5 ईमेलः Investorrelations@dixoninfo.com, वेवसाइटः www.dixoninfo.com, फोन न0. 0120– 4737200 <u> पर्वावरणीय</u> स्वीकृति

राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए)-उत्तर प्रदेश ने ईसी पहचान संख्या EC238038UP133118 जारी तिथि. 06.05.2023 के माध्यम से प्लॉट नं. 08, सैक्टर-161, नोएडा, जिला-गौतम बुद्ध नगर. यूपी. में ''ठिक्सन टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेरु'' की औद्योगिक परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की है।

स्वीकृति की प्रति एसईआईएए-यूपी के पास उपलब्ध है और इसे कंपनी की देवसाइट https://www.dixoninfo.com पर भी देखा जा सकता है।

हस्ता/-परियोजना प्रबंध डिक्सन टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड

	श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
	मुख्य कार्यालय :लेवल 3, वोखार्ट टॉवर्स, ईस्ट विंग, सी-2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई 400 051,
SHRIR @ M	दूरभाष : 022 4241 0400, 022 4060 3100 चेबसाइट : http://www.shriramhousing.in,
HOUSING FINANCE	पंजीकृत कार्यालय : कार्यालय सं. 123, अंगण्पा नैकेन स्ट्रीट, चेन्नई-600 001, शाखा कार्यालय : प्लॉट नं. 245 एवं 246,
	दूसरी मंजिल, ओमकारम टॉवर, हनुमान नगर-डी, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर 302021
परिशिष्ट-IV-A [f	नयम ९(६) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत अचल सम्पत्तियों की विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार/रों एवं जमानती/यों को सुचना दी जाती है कि श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका <mark>भौतिक कब्जा श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस</mark> लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया है, की बिक्री तालिका में वर्णित के अनुसार कर्जदारों एवं जमानतियों से श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बकायों की वसूली के लिए ''जहाँ है जैसे हैं'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से 21.11.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. के बीच की जायेगी। कर्जदारों तथा जमानतियों के विवरण, बकाया राशि, अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण तथा उस पर ज्ञात ऋणभार, आरक्षित मूल्य एवं जमा धरोहर राशि तथा वृद्धि भी निम्नवत दी गयी है :

कर्जदारों/सहकर्जदारों/जमानतियों/ बंधककर्ताओं के नाम	13(2) माँग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) तथा संविदा वृद्धि	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) का विवरण	नीलामी की तिथि एवं समय	सम्पर्क व्यक्ति तथा निरीक्षण की तिथि
1. श्रीमती रिकू कंवर पत्नी श्री अजीत सिंह पता : 125, बालनाथ नगर 9, रोड नं. 17 वीकेआई एरिया, एकेदादूनगर, जयपुर, राजस्थान- 302013 2. श्री अजीत सिंह पुत्र श्री दलपत सिंह पता : 125, बालनाथ नगर 9, रोड नं. 17 वीकेआई एरिया, एकेदादूनगर, जयपुर, राजस्थान- 302013 ऋण खाता संख्या SHLHJIPR0001303 कब्जा करने की तिथि एवं कब्जे का प्रकार 04.06.2023 भौतिक कब्जा जात ऋणभार अज्ञात बिक्री के विस्तुत नियम एवं शर्तो	मांग सूचना तिथि 15.12.2022 SHLHJIPRO 001303 रु. 96,04,810/- (रुपये छियानबे लाख चार हजार आठ सौ दस मात्र) 08.12.2022 तक तथा यहाँ उल्लिखित ब्याज एवं आकस्मिक व्यय, लागतें आदि	प्लॉट नं. डी- 678-ए, जगदम्बा नगर, अजमेर रोड गिरधारीपुरा निकट हीरापुरा पॉवर हाउस, जयपुर- राजस्थान-302021 माप : 431.47 वर्ग गज सीमाएं : उत्तर : अन्य भूमि, दक्षिण : प्लॉट नं. डी-678, पूर्व : 30 फीट रोड, पश्चिम : प्लॉट नं. डी-668	चॉतीस मात्र) संविदा वृद्धि रु. 10,000/- तथा इसके गुणकों में जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (रु.) रु. 9,06,774/- (रुपये नौ लाख छः हजार सात सौ चौहत्तर मात्र) ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि 20.11.2023 समय 10.00 बजे पूर्वा. से 05.00 बजे अप.	911020045677633 आईएफएससी कोड : UTIB0000230	2023 समय 11:00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.	कस्टमर केयर नं. 022-40081572 वीरेन्द्र सिंह राठौर +91- 9166346933 हितेश सोनी +91- 9828230007 सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि : 07.11.2023 समय :11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.
http://shriramhousing.in/			ে নেনাত্র পদ অপরেইট			<u> </u>

पंजीकृत कार्यालयः मुडपदव, पोस्ट कुत्तेतूर, वाया काटिपल्ला, मंगलूरु - 575030, कर्नाटक MRPL

दिनांक 30.09.2023 को समाप्त तिमाही एवं अर्ध वार्षिक के लिए वित्तीय परिणाम का सार न्यथा न कहा गया हो सभी रकम रू करोड़ में)

	. ाववरण	स्टैंडअलोन				समेकित					
क्रम		समाप्त	तेमाही	समाप्त	छमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त	तिमाही	समाप्त	छमाही	समाप्त वर्ष
सं		30.09.2023		30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	प्रचालन से कुल आय	22,843.79	28,452.92	47,676.32	64,368.38	1,24,736.03	22,843.79	28,452.92	47,676.32	64,368.38	1,24,736.03
2	अवधि के दौरान शुद्द लाभ/ (हानि) (कर और अपवादीमदों से पूर्व)	1,605.53	(2,575.61)	3,164.34	1 <i>,577.3</i> 4	4,236.38	1,597.92	(2,565.73)	3,158.78	1,595.97	4,253.39
3	कर से पूर्व अवधि के दौरान शुद्द लाभ/ (हानि) (अपवादी मदों के पश्चात)	1,605.53	(2,575.61)	3,164.34	1 <i>,577.</i> 34	4,238.88	1,597.92	(2,565.73)	3,158.78	1,595.97	4,255.89
4	कर के पश्चात अवधि के दौरान शुद्ध लाभ/ (हानि) (अपवादी मदों के पश्चात)	1,059.29	(1,789.14)	2,072.03	918.37	2,638.39	1,051.68	(1,779.26)	2,066.47	937.00	2,655.40
5	अवधि के दौरान कुल व्यापक आय (अवधि के दौरान लाभ / (हानि) (कर के पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर के पश्चात)	1,059.02	(1,788.36)	2,071.50	919.94	2,637.34	1,051.42	(1,778.48)	2,065.94	938.57	2,654.19
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रत्येक ₹10/-)	1,752.60	1,752.60	1,752.60	1,752.60	1,752.60	1 ,752.60	1,752.60	1,752.60	1,752.60	1,752.60
7	रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)					8,081.99					8,111.86
8	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	346.39	346.39	346.39	346.39	346.39	346.39	346.39	346.39	346.39	346.39
9	निवल मूल्प	11,906.63	8,116.35	11,906.63	8,116.35	9, B 34.65	11,930.94	8,148.00	11,930.94	8,148.00	9,864.52
10	बकाया ऋण	13,977.85	18,212.06	13,977.B5	18,212.06	16,707.37	13,977.85	18,212.06	13,977.85	18,212.06	16,707.37
11	ऋण इक्विटी अनुपात [कई बार]	1,17	2,24	1.17	2.24	1.70	1.17	2.24	1,17	2.24	1.69
12	प्रति शेयर आय (ईपीएस)(अंकित मूल्य प्रत्येक ₹10/-) (निरंतर प्रचालन हेतु) (वार्षिकृत नहीं)										
	अ) आधारभूत (र)	6.04	(10.21)	11.82	5.24	15.05	6.00	(10.15)	11.79	5.35	15.15
	ब) मिश्रित (र)	6.04	(10.21)	11.62	5.24	15.05	6.00	(10.15)	11.79	5.35	15.15
13		9.19	9,19	9,19	9.19	9,19	9,19	9.19	9,19	9,19	9,19
14	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात [कई बार] (वार्षिकृत नहीं)	0.48	(0.23)	0.66	0.40	0.92	0.48	(0.23)	0.86	0.40	0.92
15	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात 🛛 [कई बार]	7.11	(6.22)	7.49	451	5.22	7.09	(6.19)	7.48	4.54	5.23
चोर											

नोटः

1. उपरोक्त आंकड़े, सेबी (लिस्टिंग आब्लिगेशन्स एण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) विनियमन, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत तिमाही / अर्ध वार्षिक वित्तीय परिणामों का सार है। विस्तृत वित्तीय परिणाम और इस सार की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई थी और 31 अक्टूबर, 2023 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। तिमाही / अर्थ वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाईट (www.nseindia.com एवं www.bseindia.com) औरकंपनीकी वेबसाईट www.mrpl.co.in पर उपलब्ध है।

2. LODR विनियमों के विनियम 52 (4), एनएसई और बीएसई (www.nseindia.com और www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट www.mrpl .co.in पर प्रासंगिक प्रकटीकरण किए गए हैं।

- 3. कंपनी का वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार तैयार किए गए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत उल्लिखित प्रासंगिक, नियमों के साथ पठित भारतीय लेखा मानक सिद्दांत और अन्य लेखांकन सिद्दांत जो सामान्यतः भारत में स्वीकार किए गए हैं, के अनुसार यह वित्तीय परिणाम तैयार किए गए हैं।
- 4. सेबी (लिस्टिंग आब्लिगेशन्स एण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) विनियम 2015 के विनियम 33 के तहत यथा संशोधित के अनुसार वित्तीय परिणाम की समीक्षा संयुक्त सांविधिक लेखा - परिक्षकों द्वारा की गई है।

	कृत एवं बॉर्ड की ओर से
	ह./-
	वी सी टोणगांवकर
स्थान : नई दिल्ली	निदेशक (वित्त)
दिनांक : 31/10/2023	DIN: 10143854

नोट : 1) सेबी ने आदेश किया है कि शेयरों के हस्तांतरण को प्रभावी करने के लिए अनुरोध तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि जमाकर्ताओं के साथ डिमटेरियलाइच्ड फॉर्म में शेयर नहीं होते हैं। इसके संदर्भ में, भौतिक रूप में श्रेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे डेपाजीटरी प्रतिभागियों के साथ डीमैट खाता खोलें और आसानी से नकदी के लिए श्रेयरों को डिमटेरियलाइज करें। 2) शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे जल्द ही अपने केवाईसी औपचारिकताओं को पूरा करें। डिमटेरियलाइच्ड फॉर्म में येयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ईमेल पर कंपनी से संपर्क

आईए, हम एक साथ मिलकर स्वच्छ भारत का निर्माण करें।

प्राप्त करने के लिए अपने ईमेलआईडी को अपने संबंधित डीपी के साथ अपडेट करें।

	E./-3	ाधकृत प्र	ाधिकास
श्रीराम	हाउसिंग	फाइनेंस	लिमिटेड